



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

खं० 58] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1982/चैत्र 9, 1904  
No. 58] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1982/CHAITRA 9, 1904

इस भाग में अन्त्य पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 15-आईटीसी (पीएन)/82

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

विषय :—जंगावरोधी/ताप रोधक इस्पात, कोल्डेड शीट्स और ऐंगल के आयात  
नीति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

मिंसल सं. आई. पी. सी./34/3/82 :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक  
सूचना सं. 13-आई. टी. सी. (पी. एन.)/81 दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के  
अन्तर्गत प्रकाशित आयात नीति 1981-82 के परिशिष्ट 8 में प्रविष्टि सं. 23 और  
65 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ निम्न-  
लिखित मदों का आयात धातु तथा खनिज व्यापार निगम/भारतीय इस्पात  
अथॉरिटी लि. के माध्यम से सरणीबद्ध है :—

- (1) हाट रोल्ल/कोल्ड रोल्ल प्लेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स/स्टेन्लेस में क्वायल/  
सभी श्रेणियों में ताप रोधक इस्पात किन्तु इसमें रेजर ब्लेड

(परिशिष्ट-8 की प्रविष्टि सं. 23 के अन्तर्गत आने वाले) के लिए विनिर्दिष्ट विवरण के स्ट्रिप्स शामिल नहीं हैं।

- (2) स्टेनलेस में स्ट्रक्चरल्स/सभी श्रेणियों के टाप रोधक इस्पात (परिशिष्ट-8 की प्रविष्टि सं. 65 में आने वाले)।

2. प्रश्न उठाया गया है कि क्या जंगारोधी/तापरोधी इस्पात, फोल्डेड शीट्स और एंगल उपयुक्त ब्यौरे के अन्तर्गत आते हैं। किसी संदेह को दूर करने के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त प्रविष्टि सं. 23 का विवरण अर्थात् "प्लेट्स शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स" किसी भी रूप में फोल्ड की हुई ये मवे शामिल हैं और उपयुक्त उल्लिखित "स्ट्रक्चरल्स" ब्यौरे में "एंगल्स" शामिल हैं।

हस्ताक्षरित

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,  
(आयात एवं निर्यात)  
वस्तुतः सम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक,  
(आयात-निर्यात)

#### MINISTRY OF COMMERCE

#### IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 15-ITC(PN)/82

New Delhi, the 30th March, 1982

Subject : Clarification regarding the Import Policy of Stainless/Heat Resisting Steel, folded sheets and angles.

**File No. IPC/34/3/82.**—Attention is invited to entry Nos. 23 and 65 in Appendix 8 of Import Policy 1981-82, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 13-ITC(PN)/81 dated the 3rd April 1981, according to which import of the following items inter-alia is cancelled through MMTC/Steel Authority of India Limited :—

- (i) Hot rolled/cold rolled plates/sheets/strips/coils in stainless/heat resisting steels in all grades excluding strips of specified description for razor blades (covered by entry No. 23 of Appendix 8).
- (ii) Structurals in stainless/heat resisting steels, of all grades (covered by entry No. 65 of Appendix 8).

2. A question has arisen whether stainless/heat resisting steel, folded sheets and angles, are covered by the aforesaid descriptions. For the removal of any doubts, it is hereby clarified that the description of entry No. 23 above viz. "plates/sheets/strips/coils" includes these items folded in any shape; and the description "structurals" referred to above includes "angles".

Sd/-

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of  
Imports and Exports  
TAKHAT RAM, Jt. Chief Controller  
Imports and Exports